



नगर पालिक निगम भिलाई



मासिक पत्रिका
जून संस्करण 2017



नगर पालिक निगम भिलाई





श्री देवेन्द्र यादव
महापौर

संदेश

शहर में निवासरत सभी नागरिकों को शुभकामना, मैं अपनी पूरी क्षमता व लगन के साथ प्रयासरत हूं कि अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधा पहुंचे। हम अपने इस लौह नगर को स्वच्छता, पानी, बिजली, सड़क, व्यवस्थित बाजार, पार्क, उद्यान, खेल-कूद, शिक्षा, आपसी प्रेम भाईचारा, सांस्कृतिक महोत्सव, आदि सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनायेंगे। हम सब लोग मिलकर ही अपने शहर को स्वच्छ भिलाई सुन्दर भिलाई व स्वस्थ भिलाई बना सकते हैं।

श्री देवेन्द्र यादव
महापौर
नगर पालिक निगम
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई



उड़िया बस्ती को मिला, दो टैंकर पाइंट और एक बोर

भिलाईनगर/ वार्ड वासियों की मांग पर वार्ड क्रमांक 05 सुपेला उड़िया बस्ती की जल समस्या को त्वरित संज्ञान में लेते हुए महापौर देवेन्द्र यादव समाधान करने पहुंचे। वार्ड की महिलाओं द्वारा सुबह फोन में की गई जलापूर्ति की शिकायत पर महापौर ने उन्हें आज ही मोहल्ले में पहुंचकर समाधान किये जाने आश्वासन किया एवं दोपहर जोन क्रमांक 01 के अधिकारियों साथ वार्ड के निरीक्षण पर पहुंचे। जल आपूर्ति एवं नाली सफाई को लेकर मोहल्लेवासियों ने शिकायत की, जिसपर मौके में नाली में जाम मलबे को देखकर महापौर ने सुपरवाइजर को कड़ी फटकार लगाते हुए आज ही कचरे उठाने निर्देश देते हुए कहा कि बारिश के पहले वार्ड की सभी नालियों की सफाई करते हुए कचरों को उसी दिन उठावें। घर-घर से कचरे उठाने रिकशे आ रहे हैं की नहीं यह व्यवस्था सुनिश्चित करें। मोहल्ले वासियों के मांग के अनुसार दो जगहों पर स्थायी टैंकर पाइंट जहा प्रतिदिन टैंकर पहुंचे ऐसा सुनिश्चित किये जाने जोन अधिकारियों को निर्देश दिया, एवं मोहल्ले के सामने की ओर बिछे नल-जल योजना की पाईप लाईन को उक्त मोहल्ले तक पहुंचाने आवश्यक कार्यवाही किये जाने कहा। वार्ड निरीक्षण के दौरान जोन 01 के जोन आयुक्त बी0के0 देवांगन, सबइंजीनियर श्वेता, प्रभारी एस0आई0 धर्मेन्द्र मिश्रा, आदि अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।



नगर पालिक निगम भिलाई



घर-घर जाकर गीला व सुखा कचरे के बारे प्रेरित करेंगी महिला स्व-सहायता समुह के सदस्य भिलाईनगर/ स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिशन क्लीन सिटी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं को चिन्हांकित कर स्व-सहायता समुह के सदस्यों को गीला कचरा एवं सुखे कचरे को घरों से अलग-अलग डस्टबीन में एकत्रित करके संग्रहित करने की कार्यशाला सभी जोन कार्यालयों में आयोजित की गई। उन्हें बताया गया कि हरे रंग के डस्टबीन में गीला कचरा और नीले रंग के डस्टबीन में सुखा कचरा एकत्रित करना है। जिसके बदले में प्रत्येक परिवार के हिसाब से 5 रुपये मिलेगा। समुह बन जाने के बाद महिला संगठनों द्वारा घर-घर जाकर 200 घरों से कचरा एकत्रित करेंगी। गीले कचरे से निगम द्वारा खाद बनाने का कार्य किया जायेगा जिसका उपयोग निगम की उद्यानों में किया जायेगा। अतिरिक्त खाद को आवश्यकता अनुसार विक्रय भी किया जायेगा। सभी सदस्यों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई।

नगर निगम भिलाई के जोन क्रमांक 01 नेहरु नगर के सियान सदन में, जोन क्रमांक 02 वैशाली नगर के सांस्कृतिक भवन में, जोन क्रमांक 03 के मदर टेरेसा नगर जोन कार्यालय में, जोन क्रमांक 04 शिवाजी नगर के जोन कार्यालय में, जोन क्रमांक 05 के जोन कार्यालय में, जोन क्रमांक 6 रिसाली के जोन कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें जोन अध्यक्ष, पार्षदगण, निगम आयुक्त के0एल0 चौहान, जोन आयुक्त बी0के0 देवांगन, आर0के0 पदमवार, टी0के0 रणदिवे, संजय शर्मा, प्रशांत शुक्ला, संजय बागड़े, स्वास्थ्य अधिकारी आई0एल0 यादव, जांेन के सभी स्वच्छता निरीक्षक, अभियंता, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहें।



नगर पालिक निगम भिलाई



छत्तीसगढ़ में लगातर छत्तीसवा जन जागरुकता स्वच्छता सप्ताह

भिलाईनगर/ छत्तीसगढ़ में लगातार छत्तीस सप्ताह स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरुक करते हुए केबिनेट मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कहा कि स्वच्छता एक सामुहिक प्रयास है जब तक हर व्यक्ति स्वच्छता के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक अपना नगर स्वच्छ नहीं बन पायेगा । ज्यादातर लोगों का पानी, सफाई, नालियों के उपर अवैध कब्जा, भैंस खटाल की शिकायत मिली कि खटाल से निकलने वाले गोबर से नाली जाम हांे जाती है चारों तरफ बदबू होता है खटाल के मालिकों को गोकुल नगर में खटाल हेतु भूखण्ड दिया जा चुका है फिर भी नहीं जा रहे हैं इस पर जोन आयुक्त संजय शर्मा को दो दिन के अंदर निराकरण करने को कहा जो खटाल वाले सीधे तौर पर नहीं सुनते है उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किया जावे और उनके आबंटन को निरस्त किया जाये। अगर कोई बीच में बाधा डालता है तो सीधे हमको बतायें। कुछ लोगों के मनमानी के कारण क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत करते हुए शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला श्रमिक नगर छावनी वार्ड 28 में 21 फलदार एवं आयुर्वेदिक वृक्ष जनप्रतिनिधियों व स्थानीय निवासियों द्वारा लगाये गये। उपस्थित महिला समुहों को आयुक्त के0एल0 चैहान ने अपने घरों में गीला कचरा हरे रंग के कुड़ेदान में, सुखा कचरा नीले रंग के कुड़ेदान में रखने के बारे में बताये। गीले कचरे से जैविक खाद, तथा सुखे कचरे को रिसाईकिल कर पूनः उपयोगी सामग्री बनाया जा सकता है।



नगर पालिक निगम भिलाई



विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण किया गया

भिलाईनगर/ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में जोन कार्यालयों द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर वृक्षारोपण किया गया। महापौर देवेन्द्र यादव, सभापति पी० श्यामसुन्दर राव, एवं जोन अध्यक्षों ने पौधे रोपकर वृक्षारोपण करने के लिए लोगों को प्रेरित किया साथ ही घर से निकलने वाले दैनिक कचरे में से सुखा एवं गीला कचरा, को पृथकीकरण कर उपयोग में लाये जाने की जानकारी देकर स्वच्छता के कार्य में महिला स्व-सहायता समुह को आगे आकर कार्य करने की अपील किये। निगम उद्यान विभाग का मुख्य आयोजन एकता उद्यान मैत्रीकुंज में महापौर देवेन्द्र यादव, जोन अध्यक्ष राकेश अरोरा, महापौर परिषद के सदस्य केशव बंछोर, साकेत चन्द्राकर, सुश्री सोशन लोगन, ने पौधे रोपे तथा महिला स्व-सहायता समुह द्वारा कचरा एकत्रित करने की कार्य की शुरुआत किये। लोगों को घर से निकलने वाले कचरे में से गीला और सुखा कचरा को अलग-अलग कर निगम को सौंपने की अपील करते हुए उनके होने वाले लाभ की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में चेंम्बर आफ कामर्स के अध्यक्ष भीम सेन सेजपाल एवं अन्य प्रदाधिकारियों ने उपस्थित रहकर कचरा एकत्र करने के लिए डस्टबीन का वितरण किये। इसके पूर्व महापौर देवेन्द्र यादव, सभापति पी० श्यामसुन्दर राव ने रामनगर मुक्तिधाम प्रंगण में महापौर परिषद के सदस्य दीवाकर भारती, जोहन सिन्हा, सुशीला देवांगन, पार्शद पीयूष मिश्रा, मनोज यादव ने करंज, नीम, अमलताश, गुड़हल, गुलमोहर, आम, के पौधे लगाकर लोगों को वायु प्रदुषण से बचने तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील किये।



नगर पालिक निगम भिलाई



आयुक्त के0एल0 चौहान का नेहरु नगर जोन-01 में औचक निरीक्षण

भिलाईनगर/ शासकीय कार्यों में और अधिक कसावट लाने के लिए आयुक्त के0एल0 चौहान जोन 01 नेहरु नगर में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। फाईलिंग प्रक्रिया किस प्रकार संधारण हो रही है, सभी का समुचित रूप से पंजीयन होता है कि नहीं, आवेदकों से प्राप्त आवेदन का निराकरण किस प्रकार किया जाता है निराकरण की जानकारी आवेदक को किस प्रकार दी जाती है। लोक सुराज अभियान, कलेक्टर जनदर्शन, टी0एल0 बैठक, मुख्यमंत्री जनदर्शन आदि से प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय पर किया जा रहा है कि नहीं उसकी पुरी जानकारी प्राप्त की। शिकायत पंजी में जांच करने पर चौबिस विद्युत संधारण, दो पेयजल, चार सफाई संबंधित शिकायतें दर्ज मिलीं जिसका तत्काल निराकरण करने के लिए स्वयं खड़े होकर कर्मचारियों का दल को सब सामग्री के साथ रवाना करते हुए निर्देशित किये कि हमारा पहला प्रयास होना चाहिए कि समयावधि में कार्यों का निष्पादन हो। जोन 01 दौरा के दौरान सेग्रिकेशन प्लांट देखने गये वहा पर कचरों का निष्पादन किस प्रकार किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जोन 01 प्रभारी राकेश अरोरा, पार्षद दीपक रावना, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी अशोक पहाड़िया, अभियंता सुनील दुबे, प्रभारी राजस्व अधिकारी मलखान सिंग सोरी, स्वच्छता निरीक्षक धर्मेन्द्र मिश्रा, सुपरवाइजर एवं निरीक्षक उपस्थित रहें।



नगर पालिक निगम भिलाई



विश्व योग दिवस 21 जून की तैयारी

भिलाईनगर/ विश्व योग दिवस 21 जून की तैयारी के लिए दुर्ग जिला कलेक्टर उमेश अग्रवाल, निगम आयुक्त के0एल0 चौहान भिलाई निवास के सामने मैदान का निरीक्षण करने पहुंचे । योग दिवस पर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक जिला स्तरीय योग का कार्यक्रम रखा गया हैं। 20 फुट बाई 48 फुट का भव्य स्टेज का निर्माण के साथ 20 योगासन के फ्लेक्स यहाँ लगाये जा रहें है। करीब 7 हजार नागरिकों के योगा करने की व्यवस्था की जा रही है जिसके लिए 60,000 फुट पर चटाई बिछाई जाएगी करीब 20 साउंड बाक्स के साथ 4 स्थलों पर प्रशिक्षकों द्वारा योगा अभ्यास कराया जायेगा जिसमें से एक स्थान मुख्य रहेगा। बारिश की स्थिति को देखते हुए भिलाई निवास के दो बड़े हाल को भी तैयार किया गया है जहा बारिश होने की स्थिति पर कार्यक्रम हो सकेगा। कलेक्टर उमेश अग्रवाल ने निगम आयुक्त के0एल0 चौहान, एस0डी0एम0 ए.के. वाजपेयी के साथ आज सभी उन स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्था देखा और कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं पेयजल के साथ जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।



नगर पालिक निगम भिलाई



मरोदा टैंक रेलवे क्रासिंग के पास अवैध निर्माण को निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने हटाया

भिलाईनगर/ मरोदा टैंक रेलवे क्रासिंग वार्ड 44 में निर्माण हो रहे ओवरब्रिज के आसपास कब्जों के नियत से किये जा रहे अवैध निर्माण को निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने हटाया। ओवरब्रिज के नीचे कब्जे के नियत से 20 व्यक्तियों द्वारा बांस बल्ली गड़ाकर तथा किये जा रहे निर्माण कार्य को रिसाली जोन के राजस्व अमला के साथ तोड़फोड़ दस्ता ने किये जा रहे अवैध कब्जे को हटाकर बांस बल्ली तृपाल को जब्त किया। आयुक्त के 0एल0 चैहान के निर्देश पर निगम का तोड़फोड़ दस्ता निगम क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जे को तोड़ा जा रहा है। जिसमें ऐसे भी अवैध निर्माण हैं जिनकी शिकायत जनदर्शन में किया गया है। साथ ही निगम द्वारा की जा रही बारिश पूर्व तैयारी के मद्देनजर नाली के उपर तथा नाला के किनारे किये गये अवैध निर्माण को भी तोड़ा जा रहा है ताकि नाली एवं नाला की सफाई तली से किया जा सके। तोड़फोड़ कार्यवाही में सहायक राजस्व अधिकारी जोन 6 संजय वर्मा, तोड़फोड़ दस्ता प्रभारी यतीननाथ देवांगन सहित राजस्व अमला उपस्थित रहे।



नगर पालिक निगम भिलाई



डेंगु, मलेरिया, चिकनगुनियां के लार्वा कंट्रोल के लिए छिड़काव जारी

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा बारिश के मौसम को देखते हुए आयुक्त के 0एल0 चौहान के निर्देश पर निगम क्षेत्र के वार्डों में डेंगु, मलेरिया, चिकनगुनियां के लार्वा को कंट्रोल करने के लिए लार्वा स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है। वार्ड 12 कान्टेक्टर कालोनी में लालबहादुर शास्त्री हास्पिटल के पीछे सुलभ के पास, अजय मुर्गी फार्म, स्पर्श अस्पताल के आसपास, कोयला डिपो, शिवमंदिर, बंगाली बाड़ी आदि जगहों के नालियों में छिड़काव किया गया। बस्तियों में जाकर क्लोरीन टेबलेट का वितरण, ब्लिचिंग पावडर का छिड़काव किया जा रहा है। आयुक्त चौहान ने बरसात के मौसम को देखते हुए लोगों से अपने घरों में एतिहाद बरतने को कहा है, अपने घरों के कुलर, डब्बे, गडढ़े, मटके आदि में पानी एकत्रित न होने दें, नियमित साफ करें, डेंगु के लार्वा साफ पानी में ही पनपते हैं। पानी साफ सुथरा क्लोरीन टेबलेट डालकर गर्म करके पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। जागरूकता से किया गया कार्य ही सबसे बड़ा बचाव है। निगम के सभी क्षेत्रों में छिड़काव निरंतर जारी रखने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया है।



नगर पालिक निगम भिलाई



77 एम.एल.डी. फिल्टर प्लांट पेयजल व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने आयुक्त ने निर्देश दिए

भिलाईनगर/शहर के पेयजल आपूर्ति में कर्मचारियों के हड़ताल के कारण हुए बाधा के लिए 77 एम.एल.डी. फिल्टर प्लांट के प्रभारी कार्यपालन अभियंता आर.के. साहू को कार्य में लापरवाही के कारण आयुक्त के.एल. चौहान ने निलंबित करते हुए सुनील जैन उप अभियंता को प्रभारी सहायक अभियंता के रूप में फिल्टर प्लांट में पदस्थ कर शहर में जलापूर्ति तथा श्रमिकों के वेतन भुगतान समय पर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में पेयजल सप्लाई हेतु 77 एम.एल.डी. जलागार एवं उच्च स्तरीय 8 टंकियों में पानी भरने एवं शहर में पेयजल सप्लाई हेतु प्लेसमेंट के माध्यम से लगाये गये ठेका कर्मियों की माह अक्टूबर 2016 से माह जनवरी 2017 तक का बिल एक साथ 4 माह का प्रस्तुत किया गया। जबकि बिल उसी माह में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था। विलंब से बिल प्रस्तुत करने के कारण प्लेसमेंट एजेंसी एवं मजदूरों को समय पर मानदेय का भुगतान नहीं हो सका जिसके कारण दिनांक 27 एवं 28 जून तक प्लेसमेंट के मजदुर हड़ताल पर चले गये। पेयजल व्यवस्था हेतु नियोजित मजदूरों की भुगतान के संबंध में प्रभारी कार्यपालन अभियंता आर.के. साहू गंभीरता पूर्वक कार्यवाही नहीं किये एवं समय पर देयक भी भुगतान हेतु कोई पहल नहीं किये यदि ठेकेदार द्वारा विलंब से बिल प्रस्तुत किया गया तो ठेकेदार के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं किये। जिसे आयुक्त के.एल. चौहान ने कार्य के प्रति घोर लापरवाही माना है। कार्य में लापरवाही बरतने एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 के विरुद्ध आचरण होने के कारण आर.के. साहू प्रभारी कार्यपालन अभियंता जलकार्य नगर पालिक निगम भिलाई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में श्री साहू मुख्य कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई में संलग्न रहेंगे। आयुक्त ने पेयजल सप्लाई 77 एम.एल.डी. जलागार एवं उच्च स्तरीय 8 जलागार टंकियों में पानी भरने तथा शहर में सूचारु पेयजल की सप्लाई के लिए सुनील जैन उप अभियंता को प्रभारी सहायक अभियंता के रूप में 77 एम.एल.डी. फिल्टर प्लांट में पदस्थ करते हुए फिल्टर प्लांट जलागार तथा शहर के पानी टंकियों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही इस कार्य में लगे मजदुर तथा पम्प आपरेटरों का मानदेय भुगतान निर्धारित समय पर बिल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।



नगर पालिक निगम भिलाई



शासकीय कर्मचारियों की विदाई समारोह

आज नगर निगम भिलाई के सभागार में 10:00 कर्मचारियों का विदाई किया गया .सभी कर्मचारी साडा कार्यकाल से सेवारत थे आज बहुत ही मार्मिक क्षण था जब 10 कर्मचारियों का एक साथ विदाई किया गया .श्री आर यस वर्मा कार्यपालन अभियंता ,मकरध्वज भाई सहायक अधीक्षक, राम खिलावन वर्मा सहायक अधीक्षक ,विकास चंद शर्मा राजस्व निरीक्षक यह सभी कर्मचारियों ने अपने दायित्व पर व्यवहार उच्चधिकारियों एवं सहयोगियों के साथ मधुर रहा .आयुक्त के. L .चौहान, ने महापौर देवेन्द्र यादव ,ने एमआईसी सदस्य नीरज पाल, अभियंता जीएस ताम्रकार ,राजस्व अधिकारी एचके चंद्राकर, सहायक आयुक्त अशोक द्विवेदी, योजना अधिकारी मूर्ति शर्मा समाज कल्याण अधिकारी मुकेश अग्रवाल Jon आयुक्त संजय बागड़े , सभी को विदाई के समय निगम की दे राशि ,श्रीफल साल के साथ शुभकामना दिया गया जनसंपर्क विभाग नगर निगम भिलाई



Editorial Board

श्री कुमार लाल चौहान
आयुक्त (आई.ए.एस.)
नगर पालिक निगम
भिलाई

Contact & Address

श्री अशोक पहाड़िया
जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई

